



**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक:- 18.11.2021**

# **महोबा पुलिस**

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.11.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की चेकिंग / गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष खरेला श्री दिनेश तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 उमेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने 01 नफर अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र नन्दराम राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष को मय 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस के साथ ग्राम चन्दौली थाना खरेला से गिरफ्तार किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 125/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुये अभि0 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तारी अभियुक्त –**

बृजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र नन्दराम राजपूत नि0 ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा उम्र करीब 40 वर्ष।



### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 उमेश कुमार
2. का0 शैलेन्द्र कुमार
3. का0 राहुल कुमार





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **मां0 प्रधानमंत्री जी के जनपद महोबा आगमन व प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत ड्यूटी में लगे पुलिस बल की ब्रीफिंग की गयी व दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश...।**

मां0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के जनपद महोबा आगमन व आगामी कल दिनांक 19.11.2021(शुक्रवार) को जनपद महोबा में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद महोबा में विभिन्न जनपदों के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगी है, आज दिनांक 18.11.2021 को कार्यक्रम स्थल में मां0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के आगमन व प्रस्तावित कार्यक्रम को सकुशल/शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु **VVIP DUTY** में लगे अधि0/कर्म0गणों को उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा ब्रीफ किया गया व सभी को जनपद महोबा की भौगोलिक स्थिति से रुबरु कराते हुये ड्यूटी प्वाइंट समझाये गये व पूरी तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिये।

मां0 प्रधानमंत्री कल दिनांक 19.11.2021 को महोबा आ रहे हैं जिसके क्रम में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न जनपदों से आये हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की आमद की गयी है तथा सभी चिन्हित स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती के साथ रिहर्सल करते हुये सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इन्तजाम किये गये हैं।

इसी क्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में आयोजन स्थल का पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया एवं कार्यक्रम को अचूक एवं त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **PRV - 1254 ने गंभीर अवस्था में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बचायी जा सकी...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 17.11.2021 को थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत पीआरवी 1254 टीम को कॉलर शिवसहाय द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 03 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा है कृपया जल्दी पहुंचे...

इस सूचना पर पीआरवी तत्काल में घटनास्थल पहुंची जानकारी प्राप्त हुयी कि बाइक सवार जिसमें 03 व्यक्ति सवार थे को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार कर भाग गया है जिससे उसमें सवार व्यक्ति व उसमें बैठी दो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो रोड किनारे पड़े हुए हैं। जिस पर पीआरवी कर्मियों ने तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुये घायलों को उठाकर पीआरवी द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया तथा परिजनों को सूचित किया जिससे गंभीर घायल प्रीति व कल्पना और उनके पिता भानु प्रताप निवासी लाडपुर थाना कुलपहाड़ महोबा की जान बच सकी।

पुलिस के इस कार्य की सभी ने सराहना की तथा पीआरवी कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनायें दीं।

### **पीआरवी- 1254 का विवरण...**

यूपी 112 जनपद महोबा, थाना कबरई इवेंट संख्या - 09551।

### **पीआरवी स्टाफ**

कमांडर - हे०का० राज कुमार सिंह

सब कमांडर - का० फुरकान हुसैन पायलट - हे०का० मुमताज अहमद।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक**

दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **30** ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 18.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि

